



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2018/माघ 27, 1939

No. 619]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2018/MAGHA 27, 1939

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2018

का. आ.701(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आ य की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा, सिरोही, राजस्थान को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सिरोंही जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : सिरोंही

तहसील का नाम : पिण्डवाड़ा

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या / ब्लॉक संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	पिण्डवाड़ा II	2503/1	0.1138
		2503/2	0.1012
		2504/1	0.1644
		2504/2	0.1391
		2508	0.1391
		2509	0.2276
		2510	0.0253
		5511/2618	0.2403
		5509/2619	0.3414
		5544/2634	0.1012
		6075/2650	0.0759
		6076/2650	0.2498

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/915]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2018

S.O.701(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Sirohi in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer (Upkhand Adhikari), Pindwada, Sirohi, Rajasthan in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely,
Western Dedicated Freight Corridor, in the district Sirohi, in the State of Rajasthan.**

Name of District: Sirohi

Name of Tehsil: Pindwada

Serial Number	Name of the Village	Survey Number/Block Number	Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Pindwada II	2503/1	0.1138
		2503/2	0.1012
		2504/1	0.1644
		2504/2	0.1391
		2508	0.1391
		2509	0.2276
		2510	0.0253
		5511/2618	0.2403
		5509/2619	0.3414
		5544/2634	0.1012
		6075/2650	0.0759
		6076/2650	0.2498

[F. No.2013/LML/II/12/8/WC/915]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)